



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2003 (भाद्रपद 8, 1925)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30—SEPT. 5, 2003 (BHADRA 8, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2 [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और राजस्व विभागों द्वारा जारी की गई सरकारी अधिसूचनाएँ, पदोन्नतियों, मुहुरों आदि से संबंधित अधिसूचनाएँ
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 13 अगस्त, 2003

सं० ए-340 11/2/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री जे० एस० लालरिंगम, सहायक को पूर्वाह्न, 13 अगस्त, 2003 से राष्ट्रपति सचिवालय में, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशा०)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जुलाई, 2003

सं० पीएफ 1779 (3)/एन-1/जीएन4952/2003—
श्री देवेन्द्र सिंह, उप सचिव को 23 जुलाई, 2003 पूर्वाह्न से इस सचिवालय से कार्यमुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय शहरी विकास और भरीबी उपशमन मंत्री [मे० ज० (मेवानिवृत्त) बी० सी० खड्गी]

1—212GI/2003

के वैयक्तिक कर्मचारीबृन्द में निजी सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

पी० श्रीधरन, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं० ए-19(14)/2000-प्रशा० II—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 14-7-2003 के आदेश सं० 120 16/7/जेएनजी(आरईजी)/03-04/2003-आईएसएस के तहत, योजना के श्री मदन मोहन, बरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी का भारतीय सांख्यिकीय सेवा में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति होने के पश्चात् सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनाती के परिणामस्वरूप, उन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 31-7-2003 की अपरालीन से एतद्वारा कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 अगस्त, 2003

सं० ए-19011/137/88-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, संगणक केन्द्र के संयुक्त निदेशक, श्री एस०एल० बोदत की तदर्थ नियुक्ति को 4 अगस्त, 2003 से छः माह की अवधि के लिए 14,300-400-18,300/- रु० के वेतनमान में अपर निदेशक, संगणक केन्द्र के रूप में बढ़ाते हैं।

एस० सी० दास, वरिष्ठ विश्लेषक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 2003

सं० I-18012/1998-आई पी एस-I—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दी गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्थायी करने की तारीख
	सर्वश्री	
1.	मोहिन्दर सिंह अहलावत	24-09-1992
2.	सोहन लाल (सेवानिवृत्त)	28-12-1994
3.	मोहिन्दर सिंह मलिक	13-02-1996
4.	राजबीर सिंह देसवाल	25-08-1996
5.	ए० एस० अहलावत	08-02-1997

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2003

सं० I-18011/15/2003-आई पी एस-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तारीख
	सर्वश्री	
1.	रूपिन्दर सिंह, आई पी एस (राजस्थान : 1999)	23-09-2001
2.	श्रीमती सत्यप्रिया सिंह, आई पी एस (राजस्थान-1999)	20-09-2001
3.	भूपेन्द्र साहू, आई पी एस (राजस्थान-1999)	10-01-2002

जे०बी० कौशिश, डैस्क अधिकारी

दिनांक 19 अगस्त 2003

सं० I-18911/8/2003-आई० पी० एस०-IV—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोदुगुलूरी श्रीनिवास राव, आई० पी० एस० (एम० टी० : 1999) (त्रिपुरा खण्ड), को दिनांक 20-9-2001 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

जे० बी० कौशिश, डैस्क अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 2003

सं० 67 (फा० ए-19013/8/2000-प्रशासन-1)—इस विभाग की दिनांक 25-8-2000 की अधिसूचना सं० 39 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव (टी० पी० एल०-III) के रूप में भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी सुश्री दीपिका मित्तल की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 24-8-2003 (पूर्वाह्न) से 23-8-2004 तक एक वर्ष की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक बढ़ाते हैं।

प्रीति पंत, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं० 4 (फा० सं० 16/16/2002-प्रशासन-1ग) — राष्ट्रपति, श्री एस० के० पण्डा (भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा : 1982) को दिनांक 17 जून, 2003 से रु० 16,400-450-20,000 के वेतनमान में सामान्य प्रतिनियुक्ति शर्तों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन निदेशालय में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी० पी० अरोड़ा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 3 अगस्त 2003

एफ सं० 1/2/98-एन० एस० (I)—संघ लोक सेवा आयोग की अनुसंसा के आधार पर राष्ट्रपति, राष्ट्रीय बचत संगठन में प्रत्यक्ष भर्ती आधार पर 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में क्षेत्रीय निदेशक (कनिष्ठ), राष्ट्रीय बचत (समूह 'क' राजपत्रित) के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम से उनमें से प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित तिथियों से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	उम्मीदवार का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री सुन्दर लाल कुरील	15-7-2003 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राजीव सागर	13-6-2001 (पूर्वाह्न)

पी० खी० सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2003

सं० 2/5/2002-सिक्का I—राष्ट्रपति, श्री एस० बागची उप महाप्रबंधक, भारत सरकार टकसाल को उनकी अधिवर्षिता अर्थात् दिनांक 31-8-2003 तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, दिनांक 4-8-2003 (पूर्वाह्न) से 18,400-22,400/-रुपए के वेतनमान में पदोन्नति द्वारा नियमित आधार पर भारत सरकार टकसाल महाप्रबंधक नियुक्त करते हैं।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं० ए-12027/5/94-विस्फोटक—राष्ट्रपति, विस्फोटक विभाग के संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री आर० एच० भालेकर को उस विभाग में 26-6-2003 से तथा 31-3-2004 तक अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए अथवा उच्चतम न्यायालय में एस० एल० पी० का निपटान होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, 18400-22400 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति बिल्कुल तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें भविष्य में कभी उक्त ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा वरिष्ठता के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सरकार के पास किसी भी समय कोई कारण बताए बिना अथवा सूचना आदि दिए बिना इस तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है। यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में लंबित एस० एल० पी० 8828/2000 (यू० ओ० आई० बनाम श्री आर० एच० भालेकर) और अन्य न्यायिक आदेशों के परिणाम के अधीन होगी।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2003

सं० ए-12011/6/2000-स्था०—राष्ट्रपति, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में आर्थिक अन्वेषक, श्री जी० एल० गुप्ता को रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में रुपए 8000-275-13,500/- के वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति आधार पर 1 अगस्त, 2003 अपराह्न से तीन साल के लिए या आगे आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 8 अगस्त, 2003

सं० ए-12012/6/2003 पी-III (.)—राष्ट्रपति, श्री के० संजय मूर्ति, आई ए एस (एच पी : 89) को 8 अगस्त, 2003 पूर्वाह्न से 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मोहन बंसन पी०, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2003

सं० ए० 12025/21/2003-सी०एच०एस०-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० रजनीश सिंह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उपसर्वज्ञ के विशेषज्ञ ग्रेड-II में परिबीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 27-6-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,, (डा० राम मनोहर लोहिया) अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर तैनात करते हैं।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

सं० ए-35014/12'95-सी०एच०एस०-5—मणिपुर सरकार के चिकित्सा अधिकारी, डा० के० के० प्रसाद ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 16-6-2003 के अपराह्न को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

सं० ए-35014/12/95-सी०एच०एस०-5—मणिपुर सरकार की चिकित्सा अधिकारी डा० (श्रीमती) वसुधरानी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 16-6-2003 के अपराह्न को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद से कार्यभार त्याग दिया।

यू० सी० नांगिया, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2003

सं० ए-19012/(12)1/95-आ०प्र० I—भारतीय आर्थिक सेवा के एन०एफ०एस०जी० स्तरीय अधिकारी तथा कृषि लागत

एवं मुख्य आयोजक, एचि एवं सहकारिता विभाग में निदेशक श्री जयदेव दास ने अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर सरकारी सेवा से अपनी सेवा-निवृत्ति होने पर 31-5-2003 के अपराह्न से आयोग में अपना पदभार त्याग दिया है।

राज कुमार, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2003

सं० ए-12021/7/2000-प्रशा०—संलग्न लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति, ग्रामीण विकास मंत्रालय में कार्यरत, डा० डी० रामावृष्णप्पा, उपायुक्त को, भूमि संसाधन विभाग में 16400-450-20,000 रु० के वेतनमान में वैज्ञानिक (प्रौद्योगिकी विस्तार) के पद पर 12 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर उनके सेवानिवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी० बी० उपाध्याय, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जून, 2003

सं० ए-32014/12/2001-प्रशा०-II(ii)—राष्ट्रपति, नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर दूरसंचार विभाग के तदर्थ अनुभाग अधिकारी: सर्व/श्री एच० एच० के० औझा और रमेश कुमार को 16 जून, 2003 पूर्वाह्न से इसी विभाग में 5500-9000 रुपये के वेतनमान वाले उनके मूल ग्रेड में प्रत्यावर्तित करते हैं।

2. श्री एच० एच० के० औझा, बीएसएनएल में सहायक के ग्रेड में कार्य करते रहेंगे।

सतीश वधवा, अवर सचिव प्रशा०-II

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई, 2003

सं० 20-8/2003-एस टी जी-II—बड़े खेद के साथ सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित समूह-ख अधिकारी का उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि को देहान्त हो गया है:—

क्रम अधिकारी का नाम स्टाफ सं० अफिल का मृत्यु की सं० सुश्री/श्री/श्रीमती नाम तिथि

1. सुरेश सिंह 11507 बिहार/पटना 10-7-03

राम अवतार, अवर सचिव

सं० 20-8/2003-एसटीजी II बड़े खेद के साथ सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित समूह-ख अधिकारी का उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि को देहान्त हो गया है:—

क्र० अधिकारी का नाम स्टाफ सं० अफिल का नाम मृत्यु की तिथि सं० सुश्री/श्री/श्रीमती

01 वाई० समीकन्तु 32897 चेन्नई दूरसंचार 17-5-2003 एस डी ई चेन्नई जिला टेलीफोन्स, चेन्नई।

राम अवतार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2003

सं० 4/2/2002-ई-II—राष्ट्रपति, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस), नई दिल्ली में अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम (एफसीएस) के तहत स्व-स्थाने पदोन्नति के आधार पर सीएसएमआरएस, नई दिल्ली में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्रम सं०	नाम सर्व श्री	नियुक्ति की तारीख
1.	रमेश तेवानी	20-3-2003 (अपराह्न)
2.	के०एस० कालरा	—वही—
3.	राजेश कुमार माथुर	—वही—
4.	एन० वी० माधुरे	—वही—
5.	श्रीराम बेंकटेश्वरा राव	—वही—
6.	राम बचन शिवाली	—वही—

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति गैरमान्यता प्राप्त सीएसएमआरएस समूह 'ख' आर एण्ड डी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या 317/2003 के अंतिम निर्णय के अधीन है।

3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में फ्लेक्सिबल कॉम्प्लीमेंटिंग स्कीम के तहत उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति स्व-स्थाने और ब्यक्तिक होगी और इसके कारण निचले ग्रेड में विशिष्ट पदरिक्ति नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस समय धारित पद को उच्च ग्रेड अर्थात् वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर उनके बने रहने की अवधि के दौरान उन्मथन किया हुआ माना जायगा तथा इन अधिकारियों द्वारा उच्च पदों की छोड़ने पर उन्हें मूल स्तर पर अवनत माना जाएगा।

4. उपरोक्त अधिकारी उनके द्वारा पद का कार्यभार सभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसे आवश्यक समझे जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।

गोपाल दास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2003

सं० 25/2003, फाईल सं० 25/1(18)/2002-स्थापना एक-संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री संतोष कुमार मिश्रा को दिनांक 21-7-2003 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर रु० 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री संतोष कुमार मिश्रा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अगस्त 2003

सं०-ए-22012/01/2001-प्रशा०-III.-श्रम मंत्रालय में श्रम एवं रोजगार सलाहकार डा० जी० एस० राम अपनी अधिवृत्ति की आयु पूरी करने पर दिनांक 31 जुलाई 2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम० सी० मित्तल, उप सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 13th August 2003

No. A-34011/2/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Lalringum, Assistant, as Section Officer in the President's Secretariat, with effect from the forenoon of 13th August, 2003, on ad-hoc basis.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd July 2003

No. PF. 1779(3)/AN-I/GN-4952/2003.—Shri Devender Singh, Deputy Secretary is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 23rd July, 2003 and thereafter his services are placed on deputation basis at the disposal of Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation for his appointment as Private Secretary in the personal staff of Hon'ble Minister of Urban Development & Poverty Alleviation [Maj. Gen. (Retd.) B. C. Khanduri].

P. SREEDHARAN, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 31st July 2003

No. A-19(14)/2000-Adm.II.—Consequent upon his promotion to Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Statistical Service and posting as Joint Director in CSO, Ministry of Statistics & Programme Implementation, vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12016/7/JAG(REG)/03-04/2003-ISS dated 14-7-2003, Shri Madan Mohan, SRO, Planning Commission is hereby relieved w.e.f. 31-7-2003 (AN) to report to CSO, Ministry of Statistics & Programme Implementation.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & P.I.

New Delhi-1, the 5th August 2003

No. A-19011/137/88-Ad.I.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri S. L. Bodat, Joint Director in Computer Centre as Additional Director, Computer Centre in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 for a further period of six months with effect from 4th August, 2003.

S. C. DAS, Sr. Analyst

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th August 2003

No. 1-18012/9/1998-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Haryana w.e.f. the dates indicated against each :—

Sl. No., Name of the officer & Date of confirmation in the IPS

S/Shri

1. Mohinder Singh Ahlawat, 24-9-1992.
2. Sohan Lal (Retd.), 28-12-1994.
3. Mohinder Singh Malik, 13-2-1996.
4. Rajbir Singh Deswal, 25-8-1996.
5. A. S. Ahlawat, 8-2-1997.

S. P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 14th August 2003

No. 1-18011/15/2003-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Rajasthan w.e.f. the dates mentioned against their names :—

Sl. No., Name of the officer & Date of confirmation

S/Shri

1. Rupinder Singh, IPS (RJ : 1999), 23-9-2001.
2. Smt. Satyapriya Singh, IPS (RJ : 1999), 20-9-2001.
3. Bhupendra Sahu, IPS (RJ:1999), 10-1-2002.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

The 19th August 2003

No. 1-18011/8/2003-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Goduguluri Srinivasa Rao, IPS (MT:1999) (Tripura Segment), in Indian Police Service w.e.f. 20-9-2001.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 4th August 2003

No. 67 : (F A. 19013/8/2000-Ad.I.)—In continuation of this Department's Notification No. 39, dated 25-8-2000, the President is pleased to extend the deputation tenure of Ms. Deepika Mittal, an officer of the Indian Revenue Service as Under Secretary (TPL-III) in the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, for a period of one year w.e.f. 24-8-2003 (FN) to 23-8-2004 and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 2003

No. 4 (F. 16/16/2002-Ad. IC).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Panda (IC&ES : 1982) as Special Director, Directorate of Enforcement under Foreign Exchange Management Act on deputation basis or usual deputation terms in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- w.e.f. 17th June, 2003 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

V. P. ARORA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd August 2003

F. No. 1/2/98-NS-I.—On the basis of UPSC's recommendations, the President is pleased to appoint the following candidates, in order of merit, to the post of Regional Director (Junior) National Savings (Group 'A' Gazetted), in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in the National Savings Organization on direct recruitment basis w.e.f. the date mentioned against each :—

Sl. No., Name of candidate & Date of appointment

S/Shri

1. Sunder Lal Kureel, 15-7-2003 (F/N).
2. Rajiv Sagar, 13-6-2001 (F/N).

P. C. SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 6th August 2003

No. 2/5/2002-COIN.I.—The President is pleased to appoint Shri S. Bagchi, Dy. General Manager, India Government Mint as General Manager of India Government Mint by promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 18,400—22,400/- w.e.f. 4-8-2003 (F/N) till his superannuation i.e. upto 31-8-2003 or until further orders, whichever is earlier.

APARAJITA CHODHURY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 1st August 2003

No. A-12027/5/94-Expl.—The President is pleased to appoint Shri R. H. Bhalekar, Joint Chief Controller of Explosives in the Department of Explosives to officiate as Chief Controller of Explosives in that Department on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 18400—22400/- for a further period w.e.f. 26-6-2003 and upto 31-3-2004 i.e. the date of his retirement or till the disposal of SLP in the Supreme Court, or until further orders, whichever is the earliest.

The above appointment is made purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on him to continue indefinitely or for seniority in the grade on a future date. Government reserves the right to terminate this ad-hoc appointment any time without assigning any reasons or giving notice etc. The appointment would be subject to the outcome of the S.L.P. 8828/2000 (UOI Vs. Shri R. H. Bhalekar) pending in the Supreme Court and other judicial orders.

J. J. KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPTT. OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 11th August 2003

No. A-12011/6/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Shri G. L. Gupta, Economic Investigator in the Ministry of Statistics and Programme Implementation as Research Officer in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals on deputation basis for a period of three years w.e.f. the afternoon of 1st August, 2003 or until further orders, whichever is earlier.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 8th August 2003

No. A-12012/6/2003. P. II (.).—The President is pleased to appoint Shri K. Sanjay Murthy, IAS (HP : 89), as Director in the scale of Rs. 14300-400-18300/- in the Ministry of Environment & Forest with effect from the forenoon of the 8th August, 2003.

MOHANDASAN P., Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 12th August 2003

No. A. 12025/21/2003-CHS.IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajnish Singh to the post of Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him as Medical Specialist at CGHS (RML) Hospital, New Delhi in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of 27-06-2003 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

No. A. 35014/12/95-CHS. V.—Consequent upon the expiry of the term of deputation under CHS, Dr. K. K. Prasad, Medical Officer, Government of Manipur, relinquished the charge of the post of Medical Officer under Govt. of NCT of Delhi on the afternoon of 16-6-2003.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

No. A. 35014/12/95-CHS V.—Consequent upon the expiry of the term of deputation under CHS, Dr. (Mrs.) Vasudha Rani, Medical Officer, Government of Manipur, relinquished the charge of the post of Medical Officer under Govt. of NCT of Delhi on the afternoon of 16-6-2003.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi-110001, the 16th June 2003

No. A. 19012/(12)/95-EA.—Consequent upon his retirement from Government Service on attaining the age of superannuation, Shri Jaydev Das, an NFG Level Officer of IES and Director, Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture & Cooperation, has relinquished the charge of the post in the Commission with effect from the afternoon of 31-05-2003.

RAJ KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi, the 14th August 2003

No. A-12021/7/2000-Admn.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. D. Ramakrishnaiah, Deputy Commissioner in the Ministry of Rural Development to the post of Scientist (Technology Extension) in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000/- on deputation basis in the Department of Land Resources with effect from the forenoon of 12th August, 2003 for a period of 5 years or till his retirement on superannuation, whichever is earlier.

G. B. UPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 16th June 2003

No. A-32014/12/2001-Admn.II (ii).—The President is pleased to revert S/Shri H. H. K. Ojha & Ramesh Kumar, ad-hoc Section Officer of the Department of Telecom., to their substantive grade of Assistant in the pay scale of Rs. 5500—9000/- in the same Department w.e.f. the forenoon of 16th June, 2003 on the availability of regular Section Officers.

2. Shri H. H. K. Ojha shall continue to work in BSNL in the grade of Assistant.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn.II)

New Delhi-1, the 30th July 2003

No. 20-8/2003-STG-II.—It is notified with deep regret that the following TES Group-B officer expired on the date mentioned against his name.

Sl. No., Name of the Officer, Staff Number, Name of the Circle & Expired on

1. Suresh Singh, 11507, Bihar/Patna—10-07-2003

RAM AUTAR, Under Secy.

No. 20-8/2003-STG-II.—It is notified with deep regret that the following TES/TTS Group-B officer expired on the date mentioned against his name.

Sl. No., Name of the Officer, Staff Number, Name of the Circle & Expired on

1. Y. Samikannu, SDE Chennai Telephones, Chennai, 32897, CH. T. D.—17-05-2003

RAM AUTAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th August 2003

No. 4/2/2002-E.I.—The President is pleased to appoint the following officers working in the grade of Research Officer (Engineering/Scientific) in Central Soil and Materials Research Station (CSMRS), New Delhi on in-situ promotion basis under the Flexible Complementing Scheme (FCS) in the grade of Senior Research Officer in CSMRS, New Delhi in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 from the date shown against their names, until further orders :—

Sl. No., Name & Date of appointment

S/Shri

1. Ramesh Tewani—20-03-2003 (A/N).
2. K. L. Kalra—20-03-2003 (A/N).
3. Rajesh Kumar Mathur—20-03-2003 (A/N)
4. N. V. Mahure—20-03-2003 (A/N)
5. Sriram Venkateshwara Rao—20-03-2003 (A/N)
6. Ram Bachan Shivali—20-03-2003 (A/N)

2. The promotion of the above officers is subject to the final outcome of the O.A. No. 317/2003 filed by unrecog-

nised CSMRS Group 'B' R&D professionals Association in the Hon'ble CAT, Principle Bench, New Delhi.

3. The promotion of the above officers to the grade of Senior Research Officer under FCS will be in-situ and personal to the officers concerned and would not result in specific vacancy in the lower grade on that account. The post being currently held by the concerned officers will stand upgraded for their duration of stay in the higher grade i.e. Senior Research Officer and the posts shall stand downgraded to the original level once these officers vacate the higher grade.

4. The abovementioned officers will be on probation for two years from the date of assumption of the charge of the post, which can be extended further, if necessary, at the discretion of the competent authority.

GOPAL DASS, Under Secy.

New Delhi, the 13th August 2003

No. 25/2003 F. No. 25/1/(18)/2002-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2001, the President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Mishra to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 21-07-2003 (FN).

2. Shri Santosh Kumar Mishra will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 11th August 2003

No. A-22012/01/2001-Adm.III.—On attaining the age of superannuation, Dr. G. S. Ram, Labour & Employment Adviser in the Ministry of Labour has retired from Government service w.e.f. 31st July, 2003 (Afternoon).

M. C. MITTAL, Dy. Secy.

प्रमुख, भारत सरकार मद्रास, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003